

जब फ्रांस का कर्ज चुकाने में बर्बाद हो गया हैती : सत्रहवाँ न्यूज़लेटर (2025)



L'ennemi attaqué chacun de sa propre volonté se tient debout pour défendre sa patrie (जब दुश्मन हमला करे जब, सब मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी आज़ाद इच्छा के बल पर खड़े हो जाओ), ज्यॉ क्लौद सिवीर, 1970

प्यारे दोस्तो,

ट्राईकॉन्टिनेंटल : सामाजिक शोध संस्थान की ओर से अभिवादन ।

अगस्त 1719 की एक तूफानी रात में डुट्टी बोकमान (1767-1791) और सिसील फ्रतिमन (1771-1883) ने फ्रांस के कब्जे वाले हिस्पानियोला के उत्तरी सेंट डोमिंग के बोईस कैमान में एक वोडू रस्म (एक अफ्रीकी प्रवासी धर्म) की। बोकमान को

सेनेगांबिया (अब सेनेगल और गांबिया) में पकड़ा गया था। फ्रतिमन की माँ कांगो (जैसा कि एमी कसारे ने लिखा) से थीं और पिता कोर्सिका से। उन्होंने जो रस्म दो सौ से ज्यादा अफ्रीकी गुलामों के बीच की उसने पूरे फ्रांसीसी बागानों में बड़े जनविद्रोह को प्रेरित किया। क्रियोल में बोकमान में जो कहा वो आगे वाली कई पुस्तों को याद रहा और अंततः इतिहास की किताबों में भी दर्ज हुआ (जैसे 1938 में आई सी.एल.आर. जेम्स की क्लासिक किताब *The Black Jacobins*):

ईश्वर ने सूरज बनाया जो हमें प्रकाश देता है, जिसकी वजह से लहरें उफनती हैं और जो तूफानों पर राज करता है, कभी-कभी वो बादलों में छिपा रहता है, लेकिन फिर भी उसकी नज़र हम पर हमेशा रहती है। वह देख रहा है कि श्वेत लोग क्या कर रहे हैं। श्वेतों का ईश्वर उन्हें गुनाह करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन हमारा ईश्वर हमें अच्छे कर्म करने को कहता है। वह हमें रास्ता दिखाता है और हमारी मदद करता है। श्वेतों के ईश्वर के प्रतीक फेंक दो जिसकी वजह से हम जाने कितनी बार रोए हैं, और आज़ादी की आवाज़ सुनो जो हम सबके दिलों में मौजूद है।

बोकमान और फ्रतिमन ने जो रस्म की थी उसमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की भी कुछ झलक थी। लेकिन उनके भीतर अपनी परंपरा ज्यादा प्रबल थी। यह परंपरा उन्हें विरासत में मिली थी और अफ्रीकी व इस्लामी आस्थाओं से निकली थी। गुलाम अफ्रीकी उठ खड़े हुए। उन्होंने बागान जला दिए और उन लोगों को मार डाला जो उन्हें अपना गुलाम मानते थे। उनका ढंग बर्बरतापूर्ण था, लेकिन उन्होंने जो अमानवीय व्यवहार झेले थे उनके मुकाबले वह कुछ नहीं था। बागान के मालिकों की मानसिकता को समझने के लिए एंटीगुआ के एक अंग्रेज़ मालिक द्वारा कैप्टन जॉन न्यूटन, जो गुलामों का सौदा करते थे पर बाद में दास-प्रथा के खिलाफ़ हो गए, से कहे गए शब्द याद किए जा सकते हैं। कैप्टन न्यूटन ने ऐसे कई बयानों को 1787 में छपे अपने पर्वे *Thoughts Upon the African Slave Trade* (अफ्रीका में गुलामों के व्यापार पर विचार) में दर्ज किया था :

क्या हम उन्हें कम मेहनत वाला काम दें, कई सहूलियतें दें और उनसे ऐसा व्यवहार करें कि वे वृद्धावस्था तक पहुँच पाएँ? या उनकी शक्ति को पूरी तरह निचोड़ लें, कम-से-कम आराम दें, हड़तोड़ काम करवाएँ, भरसक इतेमाल करें ताकि वे उस उम्र तक पहुँच ही न पाएँ जिसमें वे अनुपयोगी हो जाएँ या काम न कर सकें; और फिर उनकी जगह लेने के लिए नए [गुलाम] खरीदें?



The Handshake and Hopeful Suitors (हाथ मिलाना और आशावान दावेदार), पियर-लूई रिच (हैती), n. d.

उस रात की रस्म के बाद टूसेंट लौवरचर (1743-1803) के नेतृत्व में एक विद्रोह शुरू हुआ। लौवरचर को उनके गॉडफादर ने पढ़ना सिखाया था और 1791 तक उन्होंने एक बागान में बैरे का काम किया (अपने काम की वजह से वे कई किताबें पढ़ पाए, जिनमें जूलीयस सीज़र की *Commentaries on the Gallic Wars* भी शामिल थी जिससे उन्हें सैन्य शास्त्र के बारे में पता चला)। लौवरचर और विद्रोह के अन्य नेताओं ने फ्रांस को हराने के मकसद से कुछ समय के लिए स्पेन से हाथ मिला लिया। लेकिन स्पेन ने बाद में खुद ही मदद हासिल करने के लिए ब्रिटेन का रुख किया। असल में यूरोपीय मुल्क गुलाम

अफ्रीकियों के विद्रोह को असली खतरे के रूप में देख रहे थे और उससे निपटने के लिए अपने छोटे मोटे मतभेद भुलाने को तैयार थे। पेरिस में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे के नेतृत्व में जारी जैकोबिन्स विद्रोह के साथ यह खतरा और भी बढ़ता जा रहा था। फरवरी 1794 में रोबेस्पियरे और जैकोबिन्स ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासप्रथा को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन के आदेश का समर्थन किया। इससे फ्रांसीसी सेना और लौवरचर के नेतृत्व वाली शक्तियों में स्पेन और ब्रिटेन के खिलाफ एक समझौता हो गया। *Aux armes, citoyens!* (हथियार उठाओ, लोगों!) अब तक गुलाम रहे अफ्रीकी यह क्रियोल भाषा में लौवरचर के पीछे चलते हुए गाते थे।

लेकिन रोबेस्पियरे का जल्द तख्तापलट कर दिया गया। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रस्ट काउन्सिल के रूप में सत्ता में आया और फ्रांस तथा अफ्रीकी क्रांतिकारियों के बीच के सभी समझौते तोड़ दिए, इसमें दासप्रथा के अंत का आदेश भी शामिल था। 1802 से 1803 तक फ्रांस के विस्कॉन्ट ऑफ़ रोशमबो ने सेंट-डोमिंग के उत्तरी क्षेत्रों में आतंक फैलाया ताकि फ्रांस का उपनिवेश फिर से स्थापित किया जा सके। इसके लिए उसने 1,500 क्यूबाई मैस्टिफ़ कुत्तों का भी इस्तेमाल किया, जो अफ्रीकियों को सूँघकर खोज निकालते थे। और इसके अलावा नौकाओं में सल्फ़र जलाया जाता ताकि विद्रोही कैदी दम घुटने से मर जाएँ। रोशमबो फ्रांसीसी सैनिकों से कहता 'मैं तुम्हारी बहादुरी नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारे गुस्से का प्रचंड रूप देखना चाहता हूँ'। ले कैप (अब कैप-हेतिन) के पास पानी में जाने कितनी लाशें फेंकी गई थीं। लम्बे समय के लिए लोगों ने वहाँ की मछलियाँ खाना बंद कर दिया था। लौवरचर को फ्रांसीसियों ने 1802 में पकड़ लिया, अगले साल स्विस् सीमा के पास जुरा माउंटेनस में कारावास के दौरान उनकी मौत हो गयी। उनकी सेना का नेतृत्व फिर जीन-जैक डेस्सल्लिनेस के हाथ में गया और उनकी लड़ाई जारी रही। 1804 में नए साल से पिछली रात को डेस्सल्लिनेस की सेना ने फ्रांस से आज़ादी की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने आज़ाद देश का नया नाम हैती रखा (इसे तब Hayti लिखा गया लेकिन अब Haiti लिखा जाता है, और तैनो भाषा में इसका अर्थ है 'पहाड़ों की भूमि')।

हैती के लोगों ने तीसरी दुनिया की पहली सफल क्रांति को अंजाम दिया। इस लड़ाई के अंतिम महीनों में डेस्सल्लिनेस ने अपनी गॉडडॉटर कैथ्रिन फ़लों से फ्रांस के झंडे में से सफ़ेद हिस्सा निकालकर लाल और नीले हिस्सों को जोड़कर उस पर *La liberté ou la mort* (स्वतंत्रता या मृत्यु) लिखने को कहा था। जब देश ने आज़ादी हासिल कर ली तो ये शब्द झंडे से हटा दिए गए।



जेनेसिस, प्रॉस्पेर पियर-लूई (हैती), 1985.

लेकिन आज़ादी कायम रखना इतना आसान नहीं होता।

दासप्रथा की नींव पर खड़े हाल ही में आज़ाद हुए संयुक्त राज्य (अमेरिका) को डर था कि हैती की क्रांति कहीं उसकी ज़मीन तक न पहुँच जाए। 1792 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने विदेश मंत्री थोमस जेफ़र्सन को आदेश दिए कि विद्रोहों द्वारा बर्बाद किए गए बाग़ान मालिकों की मदद के लिए ढाई लाख डॉलर भेजे जाएँ। जुलाई 1802 तक थोमस जेफ़र्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे, उन्होंने ब्रिटेन में अमेरिका के राजनयिक रूफ़स किंग को लिखा, 'वेस्ट इंडीज़ के पास के टापुओं पर जो हो रहा है उससे अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में गुलामों के ज़हन में काफ़ी कुछ चल रहा है। उनमें भी विद्रोह की भावना ने जगह बना ली है'। इसीलिए जेफ़र्सन और उनके मंत्रियों ने हैती की क्रांति को कुचलने का काम शुरू किया। 21 फ़रवरी 1806 को जेफ़र्सन ने 'सेंट डमिंगो टापू [यानी हैती] के कुछ क्षेत्रों' के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1824 में साउथ कैरलाइना के सेनेटर रॉबर्ट हैन ने साफ़ कहा था कि : 'हैती को लेकर हमारी नीति सरल है। हम कभी भी उनकी स्वतंत्रता को स्वीकृति नहीं दे सकते। हमारे अपने संघ के एक बड़े भाग में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसके ज़िक्र की भी हमें मनाही है'। हैती की आज़ादी अमेरिका में दासप्रथा के लिए खतरा थी।

1825 में जबर और बलप्रयोग पर टिकी कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए फ़्रांस के राजा चार्ल्स दशम ने हैती के समुद्र में लड़ाकू जहाज़ों की टुकड़ी भेजी और माँग की कि हाल ही में बना यह राष्ट्र फ़्रांस को उसका उपनिवेश और बंधुआ मज़दूर खो जाने के बदले 15 करोड़ फ़्रांक 'मुआवज़े' के तौर पर दे। यह राशि हैती के सालाना बजट का दस गुना थी और अमेरिका ने जितना धन लूईज़ीआना को ख़रीदने के लिए दिया था उसके बराबर थी। हैती ने फ़्रांसीसी बैंकों से क़र्ज़ लेकर यह मुआवज़ा चुकाया और खुद को क़र्ज़ के अनंत जाल में फँसा लिया। 1825 में लिया गया यह क़र्ज़ 1947 में जाकर पूरी तरह से हैती के सर से उतरा। देश की अस्सी प्रतिशत संपत्ति – यानी लगभग 21 अरब डॉलर – इसे चुकाने में लग चुकी थी और देश पूरी तरह संकट में आ चुका था (एक अनुमान के अनुसार हैती के लोगों को जितनी क्षतिपूर्ति देनी थी उन्होंने उसके दुगुने से ज़्यादा चुकाया था)। लेकिन इस घिनौनी हरकत के लिए न फ़्रांस ने कभी माफ़ी माँगी और न ही इस क़र्ज़ को वसूलने वाले सिटीबैंक ने।



Ville imaginaire (कल्पित शहर), परेफ्रेट दफ़फ़ौ (हैती), 1994.

हैती ने जितनी बार अपने पैरों पर खड़ा होना चाहा, उसे धकेलकर गिरा दिया गया।

1915 में अमेरिका के करीब रहे राष्ट्रपति जीन विल्बरन गीओम सैम की हत्या के बाद जब हैती की नई सरकार ने अपनी संप्रभुता स्थापित करने की कोशिश की तो अमेरिकी सेनाओं ने हस्तक्षेप कर दिया और इस टापू राष्ट्र पर 1934 तक उन्नीस साल कब्जा किए रखा। और इसके बाद डूवॉलीए का क्रूर निरंकुश शासन स्थापित करवा दिया, जिसने 1957 से 1986 के बीच अमेरिका के बदले यहाँ राज किया। दिसंबर 1990 में कृषक जनता का लोकप्रिय आंदोलन शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जनता ने सत्तर प्रतिशत वोटों के साथ पादरी रह चुके जीन-बर्ट्रैंड एरिस्टाइड को राष्ट्रपति बना दिया। इससे पहले हैती में कभी किसी के पास इतना भारी जनादेश नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि लौवरचर का दौर या 1844 के पिकेट विद्रोह की *L'Armée souffrante* (पीड़ितों की सेना) का समय लौट आया था। एरिस्टाइड ने कृषि पर निर्भर जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई और जिस प्रकार उनका नेतृत्व किया वह हैती की आजादी के दुश्मनों के लिए पहले घट चुकी इन क्रांतिकारी घटनाओं जैसी ही खतरनाक थी।

आठ महीने बाद 30 सितंबर 1991 को अमेरिका के समर्थन से सेना और पुलिस ने एरिस्टाइड की सरकार गिरा दी। बाद में दुनिया के अन्य देशों के दबाव के चलते एरिस्टाइड को 1994 से 1996 तक अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति मिली, लेकिन बड़े कड़े प्रतिबंधों के साथ।

2000 में एरिस्टाइड नब्बे प्रतिशत वोट प्राप्त कर फिर राष्ट्रपति बने। अपने पहले कार्यकाल में सैन्य तख्तापलट और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वे अब पहले से भी ज्यादा क्रांतिकारी हो चुके थे। उन्होंने हैती द्वारा क्षतिपूर्ति के मुआवजे के तौर पर चुकाई धनराशि के लिए फ्रांस को अब 22 अरब डॉलर का मुआवजा चुकाने को कहा। फ्रांस का कहना था कि यह मसला उन्नीसवीं सदी में ही संधियों के ज़रिए हल हो चुका था और अब किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं चुकाया

जाएगा। 2004 में फ्रांस और अमेरिका के समर्थन से एरिस्टाइड का तख्तापलट कर दिया गया और इसके बदले एक सैन्य शासन बैठा दिया गया जिसने मुआवजे की हैती की माँग को वापस ले लिया। उसके बाद से चक्रवातों; भूकंपों; तख्तापलट के बाद संयुक्त राष्ट्र के शांतिदूतों के दखल व उसकी वजह से फैले हैंजे और यौन हिंसा; बाहरी ऋण के बोझ; आर्थिक संकुचन; न्यूनतम वेतन कानून का विरोध; एक अनिर्वाचित राष्ट्रपति की हत्या और बढ़ती गैंग हिंसा जैसी समस्याओं के नीचे क्षतिपूर्ति का पूरा मामला कहीं दब गया है।

इन सब मसलों का कारण एक ही है, कि साम्राज्यवादियों ने हैती को कभी चैन की साँस नहीं लेने दी। वे कभी इस बात के लिए हैती की जनता को माफ़ नहीं कर सके कि इन्होंने दुनिया में सबसे पहले साम्राज्यवाद के खिलाफ़ सफल क्रांति की।



Silhouettes (छाया-आकृतियाँ), फ्रंकेटियेन (हैती)

20 फ़रवरी 2025 को हैती के एक कवि और चित्रकार 88 वर्षीय फ्रंकेटियेन की पोर्ट-औ-प्रिन्स के डेल्टा शहर में मौत हो गई। जीवनभर उन्होंने इस बात पर बहुत विचार किया था कि 1936 में उन्हें जिस माँ ने जन्म दिया था, एक अमेरिकी पुरुष ने उनका बलात्कार किया था। फ्रंकेटियेन हमेशा अपने देश में ही रहे भले ही वहाँ जितने भी उतार-चढ़ाव आए हों, वे उन लोगों की आवाज़ बने जो एक बेहतर भविष्य के लिए तड़प रहे थे। डूवॉलीए के बर्बर शासन के अंतिम दौर में लिखी अपनी बेहतरीन किताब *Fleurs d'insomnie* (निद्रालोप के फूल, 1986) में फ्रंकेटियेन ने लिखा :

सपने देखना ही बेशक आज़ादी की ओर पहला कदम है।
सपने देखना मतलब आज़ाद होना।

सस्नेह,
विजय